



BELLA CASA FASHION & RETAIL LIMITED

Importers, Manufacturer & Exporters of :
Home Furnishing, Garment & Fabrics

Ph. : 0141-2771844
E-mail : info@bellacasa.in
Website : www.bellacasa.in

E-102, 103, EPIP, Sitapura Industrial Area, Jaipur - 302022, INDIA

CIN : L17124RJ1996PLC011522

Ref- BSE/2020-21/32

Date: November 04, 2020

To,
Corporate Relationship Department,
BSE Limited
Phioze Jeejeebhoy Tower,
Dalal Street,
Mumbai - 400 001

Subject-Intimation under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Scrip Code- 539399

Dear Sir/Ma'am,

In terms of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copy of newspaper advertisement published in Dainik Navjyoti (Hindi Newspaper) and Financial Express (English Newspaper) on 04th November, 2020 regarding board meeting of the Company to be held on 11th November, 2020.

Kindly take this information on record.

Yours faithfully

For Bella Casa Fashion & Retail Limited

Sonika Gupta
Company Secretary

Membership No.: A38676



PORSCHE CAPITAL MARKET LIMITED
CIN : L65993DL1992PLC04483
Regd. Office: K H- 810, 2nd Floor, Mahipal Pur Extension (Near Maruti Work Shop), New Delhi- 110037
Website: www.porschecapital.com
Email: porsche_capital@yahoo.in

NOTICE
Notice is hereby given that pursuant to Regulation 47(1)(a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, 10th November, 2020 to consider and take on record the Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended 30th September, 2020 among other things. A copy of the said Notice and the Financial Results shall also be available at the Company's website at www.porschecapital.com and on Stock Exchange Website at www.mseil.in

For PORSCHE CAPITAL MARKET LIMITED
Sd/-
Date : 03.11.2020
RAJAN TIRKEY
DIRECTOR

JINDAL CAPITAL LTD.
Regd. Office: 79-A Kanya Nagar Delhi-110007
CIN: L74899DL1994PLC059720
Website: www.jindalcapital.in
Email: investor@jindalcapital.in
Phone: 011 23841536

NOTICE
Pursuant to Regulation 29(1)(a) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that meeting of Board of Directors will be held on Wednesday, 11th November, 2020 to consider and take on record Unaudited financial results for the quarter and half year ended on 30th September, 2020.

It is further informed that pursuant to the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 and pursuant to the internal code for prevention of Insider Trading of the Company, the Trading Window for dealing in equity shares of the Company by its Directors & designated employees shall remain closed from November 2, 2020 until the closing of business hours on November 13, 2020 on account of declaration of the aforesaid Unaudited Financial Results of the company.

For Jindal Capital Ltd.
Sd/-
Pawan Kumar Jindal
Managing Director
Date: 03.11.2020
DIN: 00524690

RIBA TEXTILES LIMITED
DD-14, Nehru Enclave, Opp. Kalkaji Post Office, New Delhi - 110019
CIN : L16101DL1989PLC034528
Tel.: +91-26213012 / 26236886
Fax.: +91-26465227

NOTICE
Notice is hereby given, Pursuant to provision of regulations 29 read with regulation 47 of the SEBI (Listing obligations and disclosure requirements) Regulations 2015, that Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday, 12th November, 2020 at 04.30 p.m. at Kishore House, Assandh Road, Panipat-132103, Haryana, inter alia, to consider, approve and take on record the Un-audited Financial results along with Limited Review Report of the Statutory Auditor, for the Quarter and half year ended on September 30th, 2020.

The said notice is also available on the Company's Website www.ribatextiles.com and the website of Stock Exchange- BSE Ltd. www.bseindia.com

For Riba Textiles Limited
Sd/-
(Neha Dubey)
Company Secretary
Place : New Delhi
Date : 03.11.2020
M. No.: 230555

K M SUGAR MILLS LIMITED
Regd. Office: 11-Moti Bhawan, Collector Ganj, Kanpur-208001(U.P.)
Corp. Office: 76-Eldeco Green, Gomti Nagar, Lucknow-226010(U.P.)
CIN No. : L15421UP1971PLC003492, Website : www.kmsugar.com
E-mail: kmsugar@gmail.com Phone : 0512-2310762, 0522-4079561

NOTICE OF BOARD MEETING
Pursuant to Regulation 29, 33 and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, 10th day of November, 2020 at 11.00 hrs (A.M) through electronic mode (the link for the same is provided herein below) to consider and approve the Un-audited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the Quarter and the half year ended 30th September, 2020 inter-alia any other matter.

Further, pursuant to clause 4 of schedule B of code of conduct SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 Trading Window has been closed for the Directors, Promoters, Officers and designated employees of the Company from 01st October, 2020 till 48 hours after the declaration of the financial results of the company for the quarter and the half year ended 30th September 2020 i.e. 12th November, 2020 for dealing in the securities of the Company.

The said notice may be accessed on the Company's website at www.kmsugar.com and also on Stock Exchanges Website at www.bse.india.com and www.nseindia.com including Un-audited quarter and half year ended financial results after approval by the Board.

Join Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/86320575473

By order of the Board
For K M Sugar Mills Ltd.
Sd/-
Pooja Dua
Company Secretary
Place: Lucknow
Date: 03 November 2020

ADVIK CAPITAL LIMITED
CIN: L65100DL1985PLC022505
Regd. Office: Plot No. 84, Kharsa No. 143/84, Ground Floor, Extended Lal Dora, Kanjhawla, Delhi - 110081
Email: cs@advikgroup.com, info@advikgroup.com, Website: www.advikgroup.com

NOTICE
Pursuant to Regulation 29(1)(a) read with Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the 3rd meeting of the Board of Directors of the Company for the Financial Year 2020-21 is scheduled to be held on Tuesday, 10th day of November, 2020 at 03:30 P.M. at the Registered Office of the Company at Plot No.84, Kharsa No. 143/84, Ground Floor, Extended Lal Dora, Kanjhawla, Delhi – 110081 to consider and approve, amongst other items of Agenda, the Un-audited Financial Results (Standalone and Consolidated) of the Company including the Limited Review Report of Auditor for the Quarter and Half Year ended 30th September, 2020.

Further, it is to be noted that in accordance with the provisions of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulation, 2015 and the Company's code of conduct for Prevention of Insider Trading, and in reference to the BSE circulars No. LIST/COMP/01/2019-20 dated April 02, 2019 issued by BSE Limited in compliance with amended SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 the "Trading Window" for dealing in the securities of the Company has already closed from 1st Day of October, 2020 till Declaration of the Un-audited Financial Results of the Company for the Quarter and Half Year ended 30th September, 2020 for Directors/Officers/Employees of the Company along with Designated Persons and their immediate relatives. The trading window shall re-open from 13th day of November, 2020.

This information is also available on the website of the Company i.e. www.advikgroup.com and on the website of BSE Limited i.e. www.bseindia.com.

For ADVIK CAPITAL LIMITED
Sd/-
Virender Kumar Agarwal
Managing Director cum Compliance officer
DIN:00531255
Place : Delhi
Date : 03.11.2020

INTEGRATED TECHNOLOGIES LIMITED
Regd. Off.: C-24, Defence Colony, New Delhi-110024, India
Tel: +91-11- 41552579,
Email: info@integratedtech.in
Website: www.integratedtech.in
CIN: L31909DL1995PLC277116

Intimation of Board Meeting & Closure of Trading Window
Pursuant to the Regulation 29 and other applicable regulations of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please note that the meeting of the Board of Directors of Integrated Technologies Limited will be held on 11th November, 2020 at 2.00 P.M. at the registered office of the company at C-24, Defence Colony, New Delhi-110024 to consider and approve the Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended on 30th September, 2020 and matters connected therewith.

Further, pursuant to SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulation 2015 and SEBI letter Ref. No. LIST/COMP/01/2019-20 dated April 02, 19 the Trading window for trading in the Securities in the Company is closed from 01.10.2020 till 48 hours from the conclusion of the Scheduled Board Meeting i.e. 13th November, 2020 (both days inclusive).

For Integrated Technologies Limited
Sd/-
Sneh Chauhan
Company Secretary & Compliance Officer
Place: New Delhi
Date : 03.11.2020

GLOBAL POWER GENERATION LIMITED
Regd. Office: Shyam House, Plot No.3, Amrapali Circle, Vaishali Nagar, Jaipur, Rajasthan - 302021
Corporate Office: A-60, Naraina Industrial Area, Phase II, New Delhi-110028
CIN No. L40300RJ1985PLC047105
Email: info@globuscdl@gmail.com
Website: www.gpgg.in

NOTICE
Pursuant to Regulation 47 read with Regulation 29 and 33 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), Notice is hereby given that the meeting of Board of Directors of the Company will be held on Thursday, 12th day of November, 2020 at 11.00 AM through virtual video conferencing, inter alia, to consider and take on record the Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2020.

For Globus Power Generation Limited
Sd/-
Umesh Kakkar
Company Secretary
Place: New Delhi
Date: 03.11.2020

Bella Casa Fashion & Retail Limited
Registered Office: E-102, 103, EIP, Sitapura Industrial Area, Jaipur- 302 022 (Rajasthan)
Website: www.bellacasa.in, CIN- L17124RJ1996PLC011522,
E-mail-cs@bellacasa.in, Tel No. 0141-2771844

NOTICE
Notice is hereby given pursuant to the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 11th day of November, 2020 at 11:30 A.M. at the registered office of the Company at E-102, 103, EIP, Sitapura Industrial Area, Jaipur-302 022 (Rajasthan) to inter alia consider and approve Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended on 30th September, 2020.

This intimation is also available on the website of the Company at www.bellacasa.in and on the website of the stock exchange where the shares of the company are listed at www.bseindia.com

For Bella Casa Fashion & Retail Limited
Sd/-
Sonika Gupta
Company Secretary
Date: November 03, 2020
Place: Jaipur

Bella Casa Fashion & Retail Limited
Registered Office: E-102, 103, EIP, Sitapura Industrial Area, Jaipur- 302 022 (Rajasthan)
Website: www.bellacasa.in, CIN- L17124RJ1996PLC011522,
E-mail-cs@bellacasa.in, Tel No. 0141-2771844

NOTICE
Notice is hereby given pursuant to the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 11th day of November, 2020 at 11:30 A.M. at the registered office of the Company at E-102, 103, EIP, Sitapura Industrial Area, Jaipur-302 022 (Rajasthan) to inter alia consider and approve Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended on 30th September, 2020.

This intimation is also available on the website of the Company at www.bellacasa.in and on the website of the stock exchange where the shares of the company are listed at www.bseindia.com

For Akashdeep Metal Industries Limited
Sd/-
Rajesh Gupta
Managing Director
DIN : 00060566
Place : Delhi
Date : 03/11/2020

NOTICE OF BOARD MEETING
Pursuant to Regulation 29, 33 and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, 10th day of November, 2020 at 11.00 hrs (A.M) through electronic mode (the link for the same is provided herein below) to consider and approve the Un-audited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the Quarter and the half year ended 30th September, 2020 inter-alia any other matter.

Further, pursuant to clause 4 of schedule B of code of conduct SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 Trading Window has been closed for the Directors, Promoters, Officers and designated employees of the Company from 01st October, 2020 till 48 hours after the declaration of the financial results of the company for the quarter and the half year ended 30th September 2020 i.e. 12th November, 2020 for dealing in the securities of the Company.

The said notice may be accessed on the Company's website at www.kmsugar.com and also on Stock Exchanges Website at www.bse.india.com and www.nseindia.com including Un-audited quarter and half year ended financial results after approval by the Board.

Join Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/86320575473

By order of the Board
For K M Sugar Mills Ltd.
Sd/-
Pooja Dua
Company Secretary
Place: Lucknow
Date: 03 November 2020

ADVIK CAPITAL LIMITED
CIN: L65100DL1985PLC022505
Regd. Office: Plot No. 84, Kharsa No. 143/84, Ground Floor, Extended Lal Dora, Kanjhawla, Delhi - 110081
Email: cs@advikgroup.com, info@advikgroup.com, Website: www.advikgroup.com

NOTICE
Pursuant to Regulation 29(1)(a) read with Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the 3rd meeting of the Board of Directors of the Company for the Financial Year 2020-21 is scheduled to be held on Tuesday, 10th day of November, 2020 at 03:30 P.M. at the Registered Office of the Company at Plot No.84, Kharsa No. 143/84, Ground Floor, Extended Lal Dora, Kanjhawla, Delhi – 110081 to consider and approve, amongst other items of Agenda, the Un-audited Financial Results (Standalone and Consolidated) of the Company including the Limited Review Report of Auditor for the Quarter and Half Year ended 30th September, 2020.

Further, it is to be noted that in accordance with the provisions of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulation, 2015 and the Company's code of conduct for Prevention of Insider Trading, and in reference to the BSE circulars No. LIST/COMP/01/2019-20 dated April 02, 2019 issued by BSE Limited in compliance with amended SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 the "Trading Window" for dealing in the securities of the Company has already closed from 1st Day of October, 2020 till Declaration of the Un-audited Financial Results of the Company for the Quarter and Half Year ended 30th September, 2020 for Directors/Officers/Employees of the Company along with Designated Persons and their immediate relatives. The trading window shall re-open from 13th day of November, 2020.

This information is also available on the website of the Company i.e. www.advikgroup.com and on the website of BSE Limited i.e. www.bseindia.com.

For ADVIK CAPITAL LIMITED
Sd/-
Virender Kumar Agarwal
Managing Director cum Compliance officer
DIN:00531255
Place : Delhi
Date : 03.11.2020

INTEGRATED TECHNOLOGIES LIMITED
Regd. Off.: C-24, Defence Colony, New Delhi-110024, India
Tel: +91-11- 41552579,
Email: info@integratedtech.in
Website: www.integratedtech.in
CIN: L31909DL1995PLC277116

Intimation of Board Meeting & Closure of Trading Window
Pursuant to the Regulation 29 and other applicable regulations of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please note that the meeting of the Board of Directors of Integrated Technologies Limited will be held on 11th November, 2020 at 2.00 P.M. at the registered office of the company at C-24, Defence Colony, New Delhi-110024 to consider and approve the Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended on 30th September, 2020 and matters connected therewith.

Further, pursuant to SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulation 2015 and SEBI letter Ref. No. LIST/COMP/01/2019-20 dated April 02, 19 the Trading window for trading in the Securities in the Company is closed from 01.10.2020 till 48 hours from the conclusion of the Scheduled Board Meeting i.e. 13th November, 2020 (both days inclusive).

For Integrated Technologies Limited
Sd/-
Sneh Chauhan
Company Secretary & Compliance Officer
Place: New Delhi
Date : 03.11.2020

Jindal Cotex Limited
Registered Office: Village Mandiala Kalan, P.O. Bija, Tehsil Khanna, District Ludhiana-141412
Ph. 01628-289842, Email: cs@sigroup.in
CIN: L17115PB1998PLC021084

NOTICE
Pursuant to Regulation 29(1)(a) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the meeting of Board of Directors of the Company will be held on Thursday, 12th day of November, 2020 at 4:00 P.M. at the Registered Office of the company at Village Mandiala Kalan, P.O. Bija, Tehsil Khanna, District Ludhiana-141412, to inter alia consider and approve un-audited financial results for the quarter ended on 30th September, 2020 and any other matter with permission of the Chair.

For Jindal Cotex Limited
Sd/-
Date : 03.11.2020 (Sandeep Jindal)
Place : Ludhiana Managing Director

Bella Casa Fashion & Retail Limited
Registered Office: E-102, 103, EIP, Sitapura Industrial Area, Jaipur- 302 022 (Rajasthan)
Website: www.bellacasa.in, CIN- L17124RJ1996PLC011522,
E-mail-cs@bellacasa.in, Tel No. 0141-2771844

NOTICE
Notice is hereby given pursuant to the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 11th day of November, 2020 at 11:30 A.M. at the registered office of the Company at E-102, 103, EIP, Sitapura Industrial Area, Jaipur-302 022 (Rajasthan) to inter alia consider and approve Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended on 30th September, 2020.

This intimation is also available on the website of the Company at www.bellacasa.in and on the website of the stock exchange where the shares of the company are listed at www.bseindia.com

For Akashdeep Metal Industries Limited
Sd/-
Rajesh Gupta
Managing Director
DIN : 00060566
Place : Delhi
Date : 03/11/2020

Bella Casa Fashion & Retail Limited
Registered Office: E-102, 103, EIP, Sitapura Industrial Area, Jaipur- 302 022 (Rajasthan)
Website: www.bellacasa.in, CIN- L17124RJ1996PLC011522,
E-mail-cs@bellacasa.in, Tel No. 0141-2771844

NOTICE
Notice is hereby given pursuant to the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 11th day of November, 2020 at 11:30 A.M. at the registered office of the Company at E-102, 103, EIP, Sitapura Industrial Area, Jaipur-302 022 (Rajasthan) to inter alia consider and approve Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended on 30th September, 2020.

This intimation is also available on the website of the Company at www.bellacasa.in and on the website of the stock exchange where the shares of the company are listed at www.bseindia.com

For Akashdeep Metal Industries Limited
Sd/-
Rajesh Gupta
Managing Director
DIN : 00060566
Place : Delhi
Date : 03/11/2020

PNC INFRA TECH LIMITED
Registered Office: NBCC Plaza, Tower II, 4th Floor, Pushp Vihar, Sector-5, New Delhi-110017
CIN: L45201DL1999PLC195937, Email: complianceofficer@pncinfotech.com, Website: www.pncinfotech.com

EXTRACT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2020

Rs. in Lakhs (except EPS)

S. No.	Particulars	Standalone			Consolidated	
		Quarter Ended (30.09.2020) un-audited	Quarter Ended (30.09.2019) un-audited	Half Year Ended (30.09.2020) un-audited	Quarter Ended (30.09.2019) un-audited	Half Year Ended (30.09.2020) un-audited
1	Total Income from Operations	1,05,345.55	1,18,021.83	1,95,871.55	1,24,846.48	2,34,127.59
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	10,787.51	24,629.72	19,446.76	12,401.48	24,990.27
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	10,787.51	24,629.72	19,446.76	12,401.48	24,990.28
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	6,926.90	20,693.75	12,938.84	7,865.62	21,408.29
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	6,977.53	20,670.05	13,040.09	7,930.39	21,384.49
6	Equity Share Capital	5,130.78	5,130.78	5,130.78	5,130.78	5,130.78
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	2,62,568.93	-	2,67,497.18
8	Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) (for continuing and discontinued operations) -					
	1. Basic:					
	2. Diluted:	2.70	8.07	5.04	3.07	6.64

Notes:
1) The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Half Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Half Yearly Financial Results are available on Stock Exchanges website (www.bseindia.com, www.nseindia.com) and Company's website (www.pncinfotech.com).
2) The above standalone/consolidated results, reviewed by the Audit Committee, were approved by the Board of Directors at its meeting held on November 02, 2020.

Place: Agra
Date: November 02, 2020

For PNC Infotech Ltd.
Sd/-
Yogesh Kumar Jain
Managing Director
(DIN : 00086811)

ADVIK CAPITAL LIMITED
CIN: L65100DL1985PLC022505
Regd. Office: Plot No. 84, Kharsa No. 143/84, Ground Floor, Extended Lal Dora, Kanjhawla, Delhi - 110081
Email: cs@advikgroup.com, info@advikgroup.com, Website: www.advikgroup.com

NOTICE
Pursuant to Regulation 29(1)(a) read with Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the 3rd meeting of the Board of Directors of the Company for the Financial Year 2020-21 is scheduled to be held on Tuesday, 10th day of November, 2020 at 03:30 P.M. at the Registered Office of the Company at Plot No.84, Kharsa No. 143/84, Ground Floor, Extended Lal Dora, Kanjhawla, Delhi – 110081 to consider and approve, amongst other items of Agenda, the Un-audited Financial Results (Standalone and Consolidated) of the Company including the Limited Review Report of Auditor for the Quarter and Half Year ended 30th September, 2020.

Further, it is to be noted that in accordance with the provisions of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulation, 2015 and the Company's code of conduct for Prevention of Insider Trading, and in reference to the BSE circulars No. LIST/COMP/01/2019-20 dated April 02, 2019 issued by BSE Limited in compliance with amended SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 the "Trading Window" for dealing in the securities of the Company has already closed from 1st Day of October, 2020 till Declaration of the Un-audited Financial Results of the Company for the Quarter and Half Year ended 30th September, 2020 for Directors/Officers/Employees of the Company along with Designated Persons and their immediate relatives. The trading window shall re-open from 13th day of November, 2020.

This information is also available on the website of the Company i.e. www.advikgroup.com and on the website of BSE Limited i.e. www.bseindia.com.

For ADVIK CAPITAL LIMITED
Sd/-
Virender Kumar Agarwal
Managing Director cum Compliance officer
DIN:00531255
Place : Delhi
Date : 03.11.2020

INTEGRATED TECHNOLOGIES LIMITED
Regd. Off.: C-24, Defence Colony, New Delhi-110024, India
Tel: +91-11- 41552579,
Email: info@integratedtech.in
Website: www.integratedtech.in
CIN: L31909DL1995PLC277116

Intimation of Board Meeting & Closure of Trading Window
Pursuant to the Regulation 29 and other applicable regulations of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please note that the meeting of the Board of Directors of Integrated Technologies Limited will be held on 11th November, 2020 at 2.00 P.M. at the registered office of the company at C-24, Defence Colony, New Delhi-110024 to consider and approve the Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended on 30th September, 2020 and matters connected therewith.

Further, pursuant to SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulation 2015 and SEBI letter Ref. No. LIST/COMP/01/2019-20 dated April 02, 19 the Trading window for trading in the Securities in the Company is closed from 01.10.2020 till 48 hours from the conclusion of the Scheduled Board Meeting i.e. 13th November, 2020 (both days inclusive).

For Integrated Technologies Limited
Sd/-
Sneh Chauhan
Company Secretary & Compliance Officer
Place: New Delhi
Date : 03.11.2020

SBEC SYSTEMS (INDIA) LIMITED
CIN: L74210DL1987PLC029979
Regd. Office: 1400 Modi Tower, 98, Nehru Place, New Delhi-110019.
Email : sbecsystems@rediffmail.com
Website : www.sbecsystems.com
Tel No. -011-42504878/4842

NOTICE
Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company scheduled to be held on Wednesday, 11th November, 2020 inter alia to consider and approve the un-audited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter and half year ended on 30th September, 2020.

The information contained in this notice is also available on the website of the Company i.e. (www.sbecsystems.com) and the website of the Stock Exchange i.e. (www.bseindia.com).

By Order of the Board
For SBEC Systems (India) Limited
Sd/-
Priyanka Negi
Company Secretary & Compliance Officer
Date: 03.11.2020

Akashdeep Metal Industries Limited
CIN: L28998DL1983PLC017150
Registered Office: 14, Dayanand Vihar, Backside, Ground Floor, Vikas Marg Extn., East Delhi -110092 Tel: +91-11-43011038,
Email: info.akashdeep14@gmail.com Website: www.akashdeepmetal.in

NOTICE
Notice is hereby given that a meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, 12th day of November, 2020 at 14, Dayanand Vihar, Backside, Ground Floor, Vikas Marg Extn., Delhi-110092, inter alia to consider and approve, the unaudited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the Quarter and Half year ended 30th September, 2020.

(This Notice is also available on the website of the Stock Exchange, where the Shares of the Company are listed i.e., www.bseindia.com and on Company's website www.akashdeepmetal.in)

For Akashdeep Metal Industries Limited
Sd/-
Rajesh Gupta
Managing Director
DIN : 00060566
Place : Delhi
Date : 03/11/2020

Akashdeep Metal Industries Limited
CIN: L28998DL1983PLC017150
Registered Office: 14, Dayanand Vihar, Backside, Ground Floor, Vikas Marg Extn., East Delhi -110092 Tel: +91-11-43011038,
Email: info.akashdeep14@gmail.com Website: www.akashdeepmetal.in

NOTICE
Notice is hereby given that a meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, 12th day of November, 2020 at 14, Dayanand Vihar, Backside, Ground Floor, Vikas Marg Extn., Delhi-110092, inter alia to consider and approve, the unaudited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the Quarter and Half year ended 30th September, 2020.

(This Notice is also available on the website of the Stock Exchange, where the Shares of the Company are listed i.e., www.bseindia.com and on Company's website www.akashdeepmetal.in)

For Akashdeep Metal Industries Limited
Sd/-
Rajesh Gupta
Managing Director
DIN : 00060566
Place : Delhi
Date : 03/11/2020

SHIVALIK BIMETAL CONTROLS LTD.
Regd. Office: Plot No. 16-18, New Electronics Complex, Chambaghat, Distt. Solan-173213 (HP)
Ph. +91-11-26027174, Fax: +91-011-26026776,
website: www.shivalikbimetals.com, Email: investor@shivalikbimetals.com,
CIN: L27101HP1984PLC005862

NOTICE
NOTICE is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, 11th day of November, 2020, inter alia to consider and approve the Un-audited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2020.

The said Notice may be accessed on the Company's website at www.shivalikbimetals.com and may also be accessed on the Stock Exchange website at www.bseindia.com.

In pursuance of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the Trading Window of the Company remains closed from 01st October, 2020 to 13th November, 2020 (both days inclusive).

For Shivalik Bimetal Controls Limited
Sd/-
Aarti Jassal
Company Secretary
Place: New Delhi
Date: 03/11/2020

ROADWAYS INDIA LIMITED
Regd. Off: 11/5B, First Floor, Pusa Road, New Delhi-110005
Tel No: 011-47192065, Fax: 011-25615466
Email id: corporate@roadwaysindia.com
CIN No: L65993DL1992PLC04483
Website : www.roadwaysindia.com

NOTICE
Notice is hereby given that the next Meeting of the Board of Directors of the Company has been scheduled to take place on Friday, November 13, 2020 at 3.30 P.M. to inter alia consider and approve the Unaudited Financial Results for the 2nd Quarter/ Half Year ended September 30, 2020.

This information is also available on the Company's website: www.roadwaysindia.com and on Stock Exchange's website: www.cse-india.com and www.mseil.in.

By Order of Board of Directors
For Roadways India Limited
Sd/-
Himani Gushan
Company Secretary & Compliance Officer
Date: November 03, 2020
Place: New Delhi

ROADWAYS INDIA LIMITED
Regd. Off: 11/5B, First Floor, Pusa Road, New Delhi-110005
Tel No: 011-47192065, Fax: 011-25615466
Email id: corporate@roadwaysindia.com
CIN No: L65993DL1992PLC04483
Website : www.roadwaysindia.com

NOTICE
Notice is hereby given that the next Meeting of the Board of Directors of the Company has been scheduled to take place on Friday, November 13, 2020 at 3.30 P.M. to inter alia consider and approve the Unaudited Financial Results for the 2nd Quarter/ Half Year ended September 30, 2020.

This information is also available on the Company's website: www.roadwaysindia.com and on Stock Exchange's website: www.cse-india.com and www.mseil.in.

By Order of Board of Directors
For Roadways India Limited
Sd/-
Himani Gushan
Company Secretary & Compliance Officer
Date: November 03, 2020
Place: New Delhi

ABHINAV LEASING & FINANCE LIMITED
(CIN: L65100DL1984PLC018748)
Regd. Office: S-524, 1st Floor, Vikas Marg, Shakarpur, Delhi 110092
E-Mail: abhinavleasefinltd@gmail.com
Website: www.abhinavleasefinltd.in

NOTICE
Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015, that a meeting of the Board of Directors will be held on Tuesday 10th November, 2020 inter alia, to consider and approve the Un-audited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended on 30th September, 2020 along with other business if any.

The information contained in this notice available on the Company's website at www.abhinavleasefinltd.in and the website of Stock Exchange as www.bseindia.com.

For Abhinav Leasing & Finance Limited
Sd/-<